

Neh

Chapter 10

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

וְצִדְקִיָּהּ: וְצִדְקִיָּהּ
और-सिदकिय्याह
H6667

הַכֹּלֵהָ
हकल्याह-का
H2446

בֶּן-
पुत्र
H6660

הַרְגָּלָה
राज्यपाल
H8660

נְהִמְיָה
नहेम्याह
H5166

הַחֲתוּמָיִם
जिन्होंने-मुहर-लगाई-थी
H2856

וְעַל
और
1

मुहर लगी वाचा पर निम्न लिखित नाम लिखे थे: हकल्याह का पुत्र राज्यपाल नहेमायाह। सिदकिय्याह,

יִרְמְיָהּ:
यिरम्याह
H3414

עֲזַרְיָה
अजर्याह
H5838

סָרָא
सरायाह
H8304

2

सरायाह, अजर्याह, यिरम्याह,

מִלְכִיָּהּ:
मल्किय्याह
H4441

אַמְרִיָּה
अमर्याह
H0568

פִּשְׁחָהּ
पशहूर
H6583

3

पशहूर, अमर्याह, मल्किय्याह,

מִלְלֹךְ:
मल्लूख
H7645

שִׁבְנְיָה
शबन्याह
H7645

חֲטוּשׁ
हटूश
H2407

4

हत्तूश, शबन्याह, मल्लूख,

עֹבְדָהּ:
ओबद्याह
H5662

מְרֵמוֹת
मेरेमोत
H4822

חָרִים
हारीम
H2766

5

हारीम, मेरेमोत, ओबद्याह,

בָּרוּךְ:
बारूख
H1263

גִּבְרִית
गिन्नतोन
H1599

דָּנְיֵאל
दानियेल
H1840

6

दानियेल, गिन्नतोन, बारूख,

מִיָּמִין:
मिय्यामीन
H4326

אַבִּיָּה
अबिय्याह
H0029

מִשׁוּלָּאָם
मशुल्लाम
H4918

7

मशुल्लाम, अबिय्याह, मिय्यामीन,

וְ-
-
H3548

הַכֹּהֲנִים:
याजक
H3548

אֵלֶּה
ये-थे
H0428

שָׁמַיָּה
शमैयाह
H8098

בִּלְגַי
बिलगै
H1084

מֵעֲזַרְיָה
माअज्याह
H4590

8

माज्याह, बिलगै और शमायाह। ये उन याजकों के नाम हैं जिन्होंने मुहर लगी वाचा पर अपने नाम अंकित किये।

קַדְמִיָּאֵל:
कदमीएल
H6934

הֵנָדָד
हेनादाद-के
H2582

מִבְּנֵי
पुत्रों-में-से
H1131

בְּנֵי
बिन्नी
H1131

אֲזַנְיָה
अजन्याह-का
H0245

בֶּן-
पुत्र
H0245

וְיֵשׁוּעַ
और-येशूआ
H3442

וְהַלְוִיִּים
और-लेवीय
H3881

9

ये उन लेवीवंशियों के नाम हैं जिन्होंने मुहर लगी वाचा पर अपने नाम अंकित किये: आजन्याह का पुत्र येशू, हेनादाद का वंशज बिन्नी और कदमिएल

10	וְאֶחָיִהֶם	שְׁבִנְיָה	הוֹדִיָּה	קְלִיטָא	פְּלָאִיָּה	חָנָן :
	और-उनके-भाई	शबन्याह	होदियाह	कलीटा	पलायाह	हानान
	H0251	H7645	H1940	H7042		H2605

और उनके भाइयों के नाम ये थे: शबन्याह, होदियाह, कलीता, पलायाह, हानान,

11	מִיכָא	רְהוֹב	חֲשַׁבְיָה :
	मीका	रहोब	हशब्याह
	H4316	H7340	H2811

मीका, रहोब, हशब्याह,

12	זַכְּכָר	שֵׁרֵבְיָה	שְׁבִנְיָה :
	जक्कर	शेरेब्याह	शबन्याह
	H2139	H8274	H7645

जक्कर, शेरेब्याह, शकन्याह,

13	הוֹדִיָּה	בָּנִי	בְּנֵינֹו :	ס
	होदियाह	बानी	बनीनू	-
	H1940	H1137	H1148	

होदियाह, बानी और बनीन।

14	רֹאשִׁי	הָעַם	פְּרֻעַשׁ	פְּתַח	מוֹאָב	עִלָּם	זַחְוָא	בְּנֵי :
	प्रधान	लोगों-के	परोश	-	पहत-मोआब	एलाम	जत्तू	बानी
			H6551	H6355	H6355	H2240	H1137	H1137

ये नाम उन मुकियाओं के हैं जिन्होंने उस मुहर लगी वाचा पर अपने नाम अंकित किये: परोश, पहत—मोआब, एलाम, जत्तू बानी,

15	בְּנֵי	עֲזַגָּד	בְּבַי :
	बुत्री	अज्गाद	बेबै
	H1138	H5803	H0893

बुत्री, अज्गाद, बेबै,

16	אֲדוֹנִיָּה	בִּגְוֵי	עָדִין :
	अदोनियाह	बिगवै	आदीन
	H0138	H0902	H5720

अदोनियाह, बिगवै, आदीन,

17	אַטָּר	חֲזִקְיָה	עֲזָזָר :
	आटेर	हिज्कियाह	अज्जूर
	H0333	H2396	H5809

आतेर, हिज्कियाह, अज्जूर,

18	הוֹדִיָּה	חָשׁוּם	בְּסֵי :
	होदियाह	हशूम	बेसै
	H1940	H2828	H1209

होदियाह, हाशूम, बेसै,

19	חָרִיף	עֲנָתוֹת	אֲנָבוּי (
	हारीफ़	अनातोत	नेबै
	H2756	H6068	H5109

हारीफ़, अनातोत, नोबै,

20 מְפִיעַשׁ מְשֻׁלָּם חֲזִיר :
मगपीआश मशुल्लम हेजीर
[H4047](#) [H4918](#) [H2387](#)

मगपीआश, मशुल्लम, हेजीर,

21 מְשִׁיבָאֵל צָרוּק יָדוּעַ :
मशजबेल सादोक यदूआ
[H4898](#) [H6659](#) [H3037](#)

मेशजबेल, सादोक, यददू,

22 פְּלַטְיָה חָנָן עֲנָיָה :
पलट्याह हानान अनायाह
[H6410](#) [H2605](#) [H6043](#)

पलट्याह, हानान, अनायाह,

23 הוֹשֵׁעַ חֲנֻנְיָה חֲשׂוּב :
होशेआ हनन्याह हशशूब
[H1954](#) [H2815](#)

होशे, हनन्याह, हशशूब,

24 הַלְלוֹהֶשׁ פִּלְחָא שׁוֹבֵק :
हल्लोहेश पिलहा शोबेक
[H3873](#) [H6401](#) [H7733](#)

हल्लोहेश, पिलहा, शोबेक,

25 רַחֻם חֲשַׁבְנָה מַעֲשִׂיָה :
रहूम हशब्नाह माअसेयाह
[H2812](#) [H4641](#)

रहूम, हशब्ना, माशेयाह,

26 וְאַחֲיָה חָנָן אָנָן :
और-अहिय्याह हानान आनान
[H0281](#) [H2605](#) [H6052](#)

अहियाह, हानान, आनान.

27 מַלְלוּךְ חָרָם בְּעֵנָה :
मल्लूख हारीम बानाह
[H2766](#) [H1196](#)

मल्लूक, हारीम, और बाना।

28 וְשָׂאָר הָעָם הַכַּהֲנִים הַלְוִיִּם הַשׁוֹעֲרִים הַמְּשָׁרְרִים הַנְּתִינִים וְכָל-
और-शेष लोग याजक लेवीय द्वारपाल गायक नतीनीम और-सब
[H7605](#) [H3548](#) [H3881](#) [H7778](#) [H7891](#) [H5411](#) [H3605](#)

בְּנֵיהֶם וְנִשְׂיָהֶם הַנְּבִיאִים הַמְּעֻזִּים הָאֲרָצוֹת אֶל-תּוֹרַת הָאֱלֹהִים וְנִשְׂיָהֶם
उनके-पुत्र उनकी-पत्नियाँ परमेश्वर-की व्यवस्था की-और देशों-के लोगों-से जिन्होंने-अलग-किया-था-अपने-आपको
[H0914](#) [H0776](#) [H0413](#) [H8451](#) [H0430](#) [H0802](#)

וּבְנֵיהֶם וְנִשְׂיָהֶם כָּל יוֹדָע מִכֵּין :
और-उनकी-पुत्रियाँ सब जिसे-ज्ञान-था और-समझ-थी
[H1323](#) [H3605](#) [H3045](#) [H0995](#)

सो अब ये सभी लोग जिनके नाम ऊपर दिये गये हैं परमेश्वर के सामने यह विशेष प्रतिज्ञा लेते हैं। यदि ये अपने वचन का पालन न करें तो उन के साथ बुरी बातें घटें! ये सभी लोग परमेश्वर के विधान का पालन करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। परमेश्वर का यह विधान हमें परमेश्वर के सेवक मूसा द्वारा दिया गया था। ये सभी लोग सभी आदेशों, सभी नियमों और हमारे यहीवा परमेश्वर के उपदेशों का सावधानीपूर्वक पालन करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। बाकी ये लोग भी प्रतिज्ञा लेते हैं: याजक लेवीवंशी, द्वारपाल, गायक, यहीवा के भवन के सेवक, तथा वे सभी लोग जिन्होंने आस—पास रहने वाले लोगों से, परमेश्वर के नियमों का

पालन करने के लिए, अपने आपको अलग कर लिया था. उन लोगों की पत्नियों, पुत्र—पुत्रियाँ और हर वह व्यक्ति जो सुन समझ सकता था, अपने भाई बंधुओं, अपने मुखिया के साथ इस प्रतिज्ञा को अपनाने में सम्मिलित होते हैं कि परमेश्वर के सेवक मूसा के द्वारा दिये गये विधान का वे पालन करेंगे। यदि न करें तो उन पर विपत्तियाँ पड़े। वे सावधानी के साथ अपने स्वामी परमेश्वर के आदेशों, अध्यादेशों और निर्णयों का पालन करेंगे।

29	מִחֲזִיקֵי	עַל-	אֲחֵיהֶם	אֲדִירֵיהֶם	וּבְאֵים	בְּאֵלָה	וּבְשִׁבוּעָה	לְלֶכֶת	בְּתוֹרַת
	ये-जुड़े	के-साथ	अपने-भाइयों	अपने-प्रधानों	और-प्रवेश-किया	शपथ-में	और-श्राप-में	चलने-के-लिए	व्यवस्था-में
	H2388		H0251	H0117	H0935	H0423	H7621	H3212	H8451
	הָאֱלֹהִים	אֲשֶׁר	נָתַןָהּ	בְּיַד	מֹשֶׁה	עֶבֶד-	וְלִשְׁמֹר	וְלַעֲשׂוֹת	אֶת-
	परमेश्वर-की	जो	दी-गई-थी	हाथ-से	मोशे	दास	और-पालन-करने	और-करने-के-लिए	-
	H0430	H5414	H3027	H4872	H5650	H0430	H8104	H0853	
	כָּל-	מִצְוֹת	יְהוָה	אֲדִינֵנוּ	וּמִשְׁפָּטָיו	וְחֻקָּיו:			
	सब	आज्ञाएँ	यहीवाह-की	हमारे-प्रभु	और-उसके-नियम	और-उसकी-विधियाँ			
	H3605	H4687	H3068	H0136	H4941	H2706			

सो अब ये सभी लोग जिनके नाम ऊपर दिये गये हैं परमेश्वर के सामने यह विशेष प्रतिज्ञा लेते हैं। यदि ये अपने वचन का पालन न करें तो उन के साथ बुरी बातें घटें! ये सभी लोग परमेश्वर के विधान का पालन करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। परमेश्वर का यह विधान हमें परमेश्वर के सेवक मूसा द्वारा दिया गया था। ये सभी लोग सभी आदेशों, सभी नियमों और हमारे यहीवा परमेश्वर के उपदेशों का सावधानीपूर्वक पालन करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। बाकी ये लोग भी प्रतिज्ञा लेते हैं: याजक लेवीवंशी, द्वारपाल, गायक, यहीवा के भवन के सेवक, तथा वे सभी लोग जिन्होंने आस—पास रहने वाले लोगों से, परमेश्वर के नियमों का पालन करने के लिए, अपने आपको अलग कर लिया था. उन लोगों की पत्नियों, पुत्र—पुत्रियाँ और हर वह व्यक्ति जो सुन समझ सकता था, अपने भाई बंधुओं, अपने मुखिया के साथ इस प्रतिज्ञा को अपनाने में सम्मिलित होते हैं कि परमेश्वर के सेवक मूसा के द्वारा दिये गये विधान का वे पालन करेंगे। यदि न करें तो उन पर विपत्तियाँ पड़े। वे सावधानी के साथ अपने स्वामी परमेश्वर के आदेशों, अध्यादेशों और निर्णयों का पालन करेंगे।

30	וְאֲשֶׁר	לֹא-	נָתַן	בְּנֵינוּ	לְעַמִּי	הָאָרֶץ	וְאֶת-	בְּנֵיהֶם	לֹא	נָקַח
	और	नहीं	हम-देंगे	अपनी-पुत्रियाँ	लोगों-को	देश-के	और	उनकी-पुत्रियों-को	न	हम-लेंगे
	H3808	H3808	H5414	H1323	H0776	H0776	H0853	H1323	H3808	H3947
	לְבָנֵינוּ:									
	अपने-पुत्रों-के-लिए									

“हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने आस—पास रहने वाले लोगों के साथ अपनी पुत्रियों का ब्याह नहीं करेंगे और हम यह प्रतिज्ञा भी करते हैं कि उनकी लड़कियों के साथ अपने लड़कों को नहीं ब्याहेंगे।

31	וְעַמִּי	הָאָרֶץ	הַמְּקֻדָּשׁ	אֶת-	הַמְּבִיאִים	לָאֵץ	שָׂבָר	בְּיָוִם	הַשַּׁבָּת	לְמִזְוֹר
	और-यदि-लोग	देश-के	सामान	-	लाएँ	या-कोई	अनाज	दिन-को	शब्त-के	बेचने-के-लिए
	H0776	H0776	H4728	H0853	H0935	H3605	H7668	H3117	H7676	H4376
	לֹא-	נָקַח	מֵהֶם	בַּשַּׁבָּת	וּבְיָוִם	קֹדֶשׁ	וְנִטְשׁ	אֶת-	הַשָּׁנָה	הַשְּׂבִיעִית
	नहीं	हम-खरीदेंगे	उनसे	शब्त-पर	या-दिन-को	पवित्र	और-हम-छोड़-देंगे	-	वर्ष-की-उपज	सातवें
	H3808	H3947	H1992	H7676	H3117	H6944	H5203	H0853	H8141	H7637
	וּמִשָּׂא	כָּל-	יָד:							
	और-लेना	हर	ऋण							
	H4855	H3605	H3027							

“हम प्रतिज्ञा करते हैं कि सब के दिन काम नहीं करेंगे और यदि हमारे आस—पास रहने वाले लोग सब के दिन बेचने को अनाज या दूसरी वस्तुएँ लायेंगे तो विश्राम के उस विशेष दिन या किसी भी अन्य विशेष के दिन, उन वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे। हर सातवें बरस हम न तो अपनी धरती को जोतेंगे और न बोएंगे, तथा हर सातवें वर्ष चक्र में हम दूसरे लोगों को दिये गये हर कर्ज को माफ़ कर देंगे।

32	וְהַעֲמַדְנוּ	עָלֵינוּ	מִצְוֹת	לָתֵת	עָלֵינוּ	שְׁלִשִׁית	הַשָּׁקָל	בַּשָּׁנָה	לְעִבְרַת
	और-हमने-ठहराया	अपने-लिए	विधियाँ	देने-के-लिए	अपने-ऊपर-से	तिहाई	शकेल-का	वर्ष-में	सेवा-के-लिए
	H5975	H4687	H5414	H7992	H8255	H8141	H5656		
	בֵּית	אֱלֹהֵינוּ:							
	भवन	हमारे-परमेश्वर-के							
	H0430								

“परमेश्वर के भवन का ध्यान रखने के लिये उसके आदेशों पर चलने के उत्तरदायित्व को हम ग्रहण करेंगे। हम हर साल एक तिहाई शकेल हमारे परमेश्वर के सम्मान में भवन की सेवा, उपासना को बढ़ावा देने के लिये दिया करेंगे।

לְמוֹעָדִים और-नियत-पूर्वो H4150	הַחֲדָשִׁים नए-चाँदों H2320	הַשָּׁבָתוֹת शब्तों-के H7676	הַתְּמִיד — H8548	וְלַעֲוֹנוֹת — H8548	וּמִנְחָת — H4503	הַמַּעֲרֹכֶת — H4635	לֶלֶחֶם — H3899	33
בֵּית- भवन-का H4399	מְלָאכֶת कार्य H3605	וְכֹל और-सब H3605	יִשְׂרָאֵל इसाएल H3478	עַל- के-लिए H3478	לְכַפֵּר प्रायश्चित-करने-के-लिए H3478	וְלַחֲטָאוֹת और-पाप-बलियों H6944	וְלִקְדָּשִׁים और-पवित्र-वस्तुओं H6944	
						ס - H0430	אֱלֹהֵינוּ: हमारे-परमेश्वर-के H0430	

इस धन से उस विशेष रोटी का खर्च चला करेगा जिसे याजक मन्दिर की वेदी पर अर्पित करता है। इस धन से ही अन्नबलि और होमबलि का खर्च उठाया जायेगा। सब नये चाँद के त्यौहार तथा दूसरी सभाओं पर इसी धन से खर्चा होगा। उन पवित्र चढ़ावों और पापबलियों पर खर्च भी इस धन से ही किया जायेगा जिनसे इस्राएल के लोग शुद्ध बनते हैं। इस धन से ही हर उस काम का खर्च चलेगा जो हमारे परमेश्वर के मन्दिर के लिए आवश्यक है।

לְבֵית भवन-में H0935	לְהָבִיא लाने-के-लिए H0935	וְהָעָם और-लोगों-में H3881	הַלְוִיִּם लेवीयों H3881	הַכֹּהֲנִים याजकों-में H3548	הָעֲצִים लकड़ी-के H6086	קָרְבָן चढ़ावे H5307	עַל- के-लिए H5307	הַפְּלִגְנוֹ हमने-डालीं H5307	וְהַגְּדֻלּוֹת और-विडियाँ H1486	34
עַל- पर H8141	לְבַעַר जलाने-के-लिए H8141	בְּשָׁנָה दर-वर्ष H8141	שָׁנָה वर्ष H8141	מִזְמָנִים नियुक्त H2163	לְעֵתִים समयों-पर H6256	אֲבֹתֵינוּ हमारे-पूर्वजों-के H0001	לְבֵית- घरानों-के-अनुसार H0001	אֱלֹהֵינוּ हमारे-परमेश्वर-के H0430	מִזְבֵּחַ वेदी H4196	
				בְּתוֹרָה: व्यवस्था-में H8451	כְּכָתוּב जैसा-लिखा-है H3789	אֱלֹהֵינוּ हमारे-परमेश्वर-की H0430	יְהוָה यहोवाह-के H3068	יְהוָה यहोवाह-के H3068	מִזְבֵּחַ वेदी H4196	

“हम यानी याजक, लेवीवंशी तथा लोगों ने मिल कर यह निश्चित करने के लिए पासे फेंके कि हमारे प्रत्येक परिवार को हर वर्ष एक निश्चित समय हमारे परमेश्वर के मन्दिर में लकड़ी का उपहार कब लाना है। वह लकड़ी जिसे हमारे परमेश्वर यहोवा की वेदी पर जलाया जाता है। हमें इस काम को अवश्य करना चाहिये क्योंकि यह हमारी व्यवस्था के विधान में लिखा है।

שָׁנָה वर्ष H8141	עֵץ पेड़ों-के H6086	כָּל- सब H3605	פְּרִי फल H6529	כָּל- सब H3605	וּבְכוּרֵי और-पहिले-फल H1061	אֲדָמָתָנוּ हमारी-भूमि-के H0127	בְּכוּרֵי पहिले-फल H1061	אֶת- — H0853	וְלְהָבִיא और-लाने-के-लिए H0935	35
								יְהוָה: यहोवाह-के H3068	לְבֵית भवन-में H8141	בְּשָׁנָה दर-वर्ष H8141

“हम अपने फलों के हर पेड़ और अपनी फसल के पहले फलों को लाने का उत्तरदीयत्व भी ग्रहण करते हैं। हर वर्ष यहोवा के मन्दिर में हम उस फल को लाकर अर्पित किया करेंगे।

בְּקָרְבָנוֹ हमारे-झुण्डों-के H1241	בְּכוּרֵי पहिलौठे H1060	וְאֶת- और H0853	בְּתוֹרָה व्यवस्था-में H8451	כְּכָתוּב जैसा-लिखा-है H3789	וּבְהִמָּוָתֵינוּ और-हमारे-पशुओं-के H0929	בְּבָנֵינוּ हमारे-पुत्रों-के H0929	בְּכָרוֹת पहिलौठे H1060	וְאֶת- और H0853	36
אֱלֹהֵינוּ: हमारे-परमेश्वर-के H0430	בְּבֵית भवन-में H8334	הַמְּשָׁרְתִים जो-सेवा-करते-हैं H8334	לְכֹהֲנִים याजकों-को H3548	אֱלֹהֵינוּ हमारे-परमेश्वर-के H0430	לְבֵית भवन-में H0430	לְהָבִיא लाने-के-लिए H0935	וּצְאֵנֵינוּ और-हमारी-भेड़ों-के H6629		

“क्योंकि व्यवस्था के विधान में यह भी लिखा है इसलिए हम इसे भी किया करेंगे: हम अपने पहलौठे पुत्र, पहलौठे गाय के बच्चे, भेड़ों और बकरियों के पहले छौनो को लेकर परमेश्वर के मन्दिर में आया करेंगे। उन याजकों के पास हम इन सब को ले जाया करेंगे जो वहाँ मन्दिर में सेवा आराधना करते हैं।

וַיִּצְהָר	תִּירֹשׁ	עֵץ	כָּל-	וּפְרִי	וּתְרוּמָתֵינוּ	עָרִיסְתֵינוּ	רֵאשִׁית	וְאֶת-	37
और-तेल	नई-दाखरस	पेड़ों-का	सब-प्रकार-के	और-फल	और-हमारी-भेंट	हमारे-आटे-के	पहिले-फल	और	
H3323	H8492	H6086	H3605	H6529	H8641	H6182	H7225	H0853	
לְלוּיִם	אֲדָמָתָנוּ	וּמַעֲשֵׂר	אֱלֹהֵינוּ	בֵּית-	לְשָׂכוֹת	אֶל-	לְכֹהֲנִים	נָבִיא	
लेवीयों-को	हमारी-भूमि-का	और-दशवाँश	हमारे-परमेश्वर-के	भवन-की	कोठरियों	की-ओर	याजकों-को	लाने-के-लिए	
H3881	H0127	H4643	H0430		H3957	H0413	H3548	H0935	
		עֲבַדְתֵּנוּ:	עָרֵי	בְּכָל	הַמְּעֻשָׂיִם	הַלוּוִיִּם	וְהָם		
		हमारी-खेती-के	नगरों-में	सब	दशवाँश-लेते-थे	लेवीय	क्योंकि-वे		
		H5656		H3605	H6237	H3881	H1992		

“हम परमेश्वर के मन्दिर के भण्डार में याजकों के पास ये वस्तुएँ भी लाया करेंगे: पहला पिसा खाना, पहली अन्न— बलियाँ, हमारे सभी पेड़ों के पहले फल, हमारी नयी दाखमधु और तेल का पहला भाग। हम लेवीवंशियों के लिये अपनी उपज का दसवाँ हिस्सा भी दिया करेंगे क्योंकि प्रत्येक नगर में जहाँ हम काम करते हैं। लेवी वंशी हमसे ये वस्तुएँ लिया करते हैं।

מַעֲשֵׂר	אֶת-	יַעֲלוּ	וְהַלוּוִיִּם	הַלוּוִיִּם	בְּעֵשֶׂר	הַלוּוִיִּם	עִם-	אֶתְהָן	בֵּין-	הַכֹּהֲנָן	וְהַלֵּוִי	38
दशवाँश	-	लेकर-जाएँगे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H4643	H0853	H5927	H3881	H3881	H6237	H3881		H0175		H3548	H1961	
		הָאוֹצָר:	לְבֵית	הַלְּשָׁכוֹת	אֶל-	אֱלֹהֵינוּ	לְבֵית	הַמְּעֻשֵׁר				
		भण्डार-घर-के	के	कमरों	की-ओर	हमारे-परमेश्वर-के	भवन-में	दशवाँश-का				
		H0214		H3957	H0413	H0430		H4643				

लेवीवंशी जब उपज का यह भाग एकत्र करें तो हारुन के परिवार का एक याजक उनके साथ अवश्य होना चाहिये, और फिर इन सब वस्तुओं के दसवें हिस्से को वहाँ से लेकर लेवीवंशियों को चाहिये कि वे उन्हें हमारे परमेश्वर के मन्दिर में ले आयें और उन्हें मन्दिर के खजाने की कोठियों में रख दे।

הַדָּגָן	תְּרוּמָת	אֶת-	הַלֵּוִי	וּבְנֵי	יִשְׂרָאֵל	בְּנֵי-	יָבִיאוּ	הַלְּשָׁכוֹת	אֶל-	כִּי	39
अनाज-का	भेंट	-	लेवी-के	और-पुत्र	इसाएल-के	पुत्र	लाएँगे	कोठरियों	की-ओर	क्योंकि	
H1715	H8641	H0853	H3878		H3478		H0935	H3957	H0413		
וְהַשְּׂוֹעָרִים	הַמְּשֻׁרְתִים	וְהַכֹּהֲנִים	הַמְּקֻרָשׁ	כָּלֵי	וְשָׁם	וְהַיִּצְהָר	וְהַתִּירֹשׁ				
और-द्वारपाल	जो-सेवा-करते-हैं	और-याजक	पवित्र-स्थान-की-हैं	वस्तुएँ	और-जहाँ	और-तेल-का	नई-दाखरस-का				
H7778	H8334	H3548	H4720	H3627	H8033	H3323	H8492				
		אֱלֹהֵינוּ:	בֵּית	אֶת-	נָעֹזְב	וְלֹא	וְהַמְּשֻׁרְרִים				
		हमारे-परमेश्वर-का	भवन	-	हम-छोड़ेंगे	और-नहीं	और-गायक-हैं				
		H0430		H0853		H3808	H7891				

इसाएल के लोगों और लेवीवंशियों को चाहिये कि वे अपने उपहारों को कोठियों में ले आयें। उपहार के अन्न, नयी दाखमधु और तेल को उन्हें वहाँ ले आना चाहिये। मन्दिर में काम आने वाली सभी वस्तुएँ उन कोठियों में रखी जाती हैं और अपने कार्य पर नियुक्त याजक, गायक और द्वारपालों के कमरे भी वही थे। “हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं करते हैं कि हम अपने परमेश्वर के मन्दिर की देख—रेख किया करेंगे!”